

Vadodara Office: ABS Towers, 2nd Floor, Old Padra Road, Vadodara-390007, Gujarat, India Gujarat Fluorochemicals Limited

Tel: +91-265-6198111/2330057 E-mail: contact@gfl.co.in, Web.: www.gfl.co.in

5th September, 2025

The Secretary **BSE Limited**Phiroze Jeeieebhov Towers

Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai 400 001

The Secretary

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex

Bandra (E), Mumbai 400 051

Symbol: FLUOROCHEM

Dear Sir/Madam,

Scrip Code: 542812

GFCL: BRD: 2025

Sub: Newspaper advertisement confirming dispatch of Notice convening 7th Annual General Meeting and the Integrated Annual Report of the Company for the Financial Year 2024-25

Ref.: Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), please find enclosed copies of newspaper advertisement published today i.e. 5th September, 2025 in the Business Standard (English) and Business Standard (Hindi), regarding Notice convening 7th Annual General Meeting, remote e-voting and Record Date information in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 47 of the Listing Regulations.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Gujarat Fluorochemicals Limited

Bhavin Desai Company Secretary FCS 7952

Encl.: As above



Sri Chamundeswari Sugars Limited CIN: U15435KA1970PLC001974 Regd. Office: No.88/5, Richmond Road, Bangalore – 560 025

Phone no: 080-2500 2500 Fax: 080 – 2500 2510 Email: complianceofficer@chamundisugars.com Web: www.chamundeswarisugars.in

Notice is hereby given that the FIFTY SECOND ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) of the members of the Company will be held through video conferencing ("VC")/Other Audio-visual Means ("OAVM") on Monday, 29" September, 2025 at 11.00 A.M IST, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act 2013 and the Rules made thereunder and read with general circular No. 10/2022 dated 28.12.2022, General circular No. 11/2022 dated 28.12.2022 and General circular No. 09/2023 dated 25.09.2023 and all other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") to transact the business set out in the Notice Calling the AGM, Members will ittend the AGM through VC/OAVM.

In Compliance with the relevant circular the Notice of the AGM and the standalone and In Compliance with the relevant circular the Notice of the AGM and the standalone and consolidated financial Statements for the financial year 2024-25, along with Board's report, Auditor Report and other documents required to attached thereto, have been sent to the Members of the Company Whose names appear in the Register of Members on August 29", 2025 and whose E-mail address is registered with the Company/Depository participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company website at <u>www.chamundeswarisugars.in</u>.

Instruction for remote e-voting and e-voting during AGM:

The Company is providing to its member's facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"), Members may cast their votes remotely, using the electronic voting systems of NSDL on the dates mentioned herein below ("remote e-voting").

Further the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM at https://www.evoting.nsdl.com.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the agency to provide e-voting facilities.

Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been sent to the members through e-mail. The same Login Credentials should be used for attending the AGM through VC/OAVM.

The manner of remote e-voting and voting at the AGM by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM which is also available on the website of the Company; www.chamundeswarisugars.in, and on the website of NSDL, at nttps://www.evoting.nsdl.com

The remote e-voting facility will be available during the following period:

Commencement of remote e-voting: 9:00 a.m. on Thursday, September 25, 2025 : 5:00 p.m. on, Sunday, September 28, 2025 End of remote e-voting The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting modules shall be forthwith disabled by NSDL upon expiry of the aforesaic

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., Monday, September 22nd, 2025 only shall be entitled to avail the facilities of remote e-voting or for the participation at the AGM and voting through https://www.evoting.nsdl.com.

Manners of registering/updating E-mail addresses are as below:

- · Members holding shares in Demat and physical mode, who have not registered updated their e-mail address with the Company, are requested to register/update the same through using link https://www.integratedindia.in/ emailupdation.aspx
- Any person who becomes a member of the Company after dispatched of the Notice
 of the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the User ID and
 password in the manner as provided in the Notice of the AGM, which is available on
 Company's website and of NSDL website at https://www.evoting.nsdl.com.
- · Such Members may cast their Votes using the e-voting instructions, in the manne specified by the Company in the Notice of AGM.

The Members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

n case members have any queries regarding e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions and e-voting user manual available at https://www.evoting.nsdl.com Under the help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@nsdl.in.

For any grievances or queries relating to voting by electronic means, shareholders are requested to contact **M/s Integrated Registry Management Services Private Limited** at the email id giri@integratedindia.in.

POWERGRID HONOURED WITH SCOPE

EMINENCE AWARD FOR HR EXCELLENCE

BY PRESIDENT OF INDIA

Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID), a

Maharatna CPSU under Ministry of Power, Government of

India, has been conferred with the SCOPE Eminence Award for

Human Resource Management by Hon'ble President of India

Smt. Droupadi Murmu on 29th August 2025 in a function held

at Vigyan Bhawan, New Delhi. The award was received by Sh.

Ravindra Kumar Tyagi, Chairman and Managing Director,

POWERGRID along with Dr. Yatindra Dwivedi, Director

(Personnel), POWERGRID, On this occasion, Sh. Pankai,

Chaudhary, Hon'ble Union Minister of State for Finance and

Sh. K. Moses Chalai, Secretary, DPE, Ministry of Finance

were present along with senior officials of CPSUs, SCOPE and

This recognition highlights POWERGRID's progressive HR

practices that emphasize employee-focused policies, continu-

ous upskilling and leadership development, while nurturing a

culture of innovation, inclusivity, and holistic well-being across

As of 31st July 2025, POWERGRID has commissioned and is

operating 286 Sub-stations and more than 1,80,849 ckm trans-

mission lines and 5.74.331 MVA of transformation capacity.

With the adoption of the latest technological tools and tech-

niques, enhanced use of automation and digital solutions,

POWERGRID has been able to maintain an average trans-

DFCCIL MD REVIEWS EDFC PROGRESS,

HIGHLIGHTS SAFETY AND

INFRASTRUCTURE PRIORITIES

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

(DFCCIL) Managing Director Shri Praveen Kumar inspected

the New Dadri - New Khuria - New Chawapail section of the

Eastern Dedicated Freight Corridor (EDFC), reviewed the

progress of projects along the corridor and directed officials to

further strengthen the safety and efficiency of freight movement.

In continuation of his visit, Shri Praveen Kumar also met with

the Hon'ble Chief Minister of Haryana Shri Nayab Singh Saini,

apprised him about DFCCIL's initiatives, and presented a

Coffee Table Book. He informed that with the development of

dedicated freight corridor infrastructure, industrialists and

traders in New Rewari (Haryana) and Kathuwas (Rajasthan)

will benefit from reduced logistics costs, faster deliveries, and

better freight solutions. This will not only boost industrial activ-

ity but also lead to significant regional development, enhanced

employment opportunities and overall improvement in the

Shri Praveen Kumar also inaugurated the Rail Grinding

Machine (RGM) siding at New Khanna station, newly con-

structed staff quarters at the New Ambala City and the

Intermediate Maintenance Depot (IMD) at New Chawapail.

After the inspection. Shri Prayeen Kumar interacted with offi-

cials and underscored that DFCCIL's goal is not only to

enhance freight capacity but also to elevate India's logistics sys-

He especially emphasized the importance of improving oper-

ational efficiency. According to him, with the implementation of

the Dedicated Freight Corridor, the average speed of freight

trains, on-time delivery, and logistics reliability will all witness

significant enhancement. This will be supported by effective

coordination of technology, management and human

socio-economic conditions of the local population

tem to global standards.

mission system availability of more than 99.85%.

By order of the Board For Sri Chamundeswari Sugars Limited Priya Arwat

— TENDER CARE —

Company Secretary

Place: Bangalore Date : 05th September, 2025

POWERGRID.

RAJ OIL MILLS LIMITED

CIN: L15142MH2001PLC133714 Read, Office: 224-230, Bellasis Road, Mumbai -400008 Corporate Office: 205, Raheja Centre, 214, Free press Journal Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021.

Email: cs@raioilmillsltd.com : Website: www.raioilmillsltd.com **NOTICE OF 23rd ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION** NOTICE is hereby given that the 23rd Annual General Meeting (AGM) of Members of Rai Oil Mills Limited ("the Company") will be held on Monday, September 29, 2025. at 11:30 A.M. (IST) through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice convening the AGM. The ompany has already dispatched the Annual Report for the financial year 2024-25 along with the Notice convening AGM, through electronic mode to those Members whose mail addresses are registered with the Company and/or Depositories in accordance vith the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India from time to time. The Annual Report along with the Notice of the AGM is also available on the website of the Company at www.rainilmillsltd.com on the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at <u>www.nseindia.com</u> and on the website of **National** Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Further, as per Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), as amended, the webink, including the exact path, where complete details of the Integrated Annual Report are available is being to those Members who have not registered their e-mail IDs.

Remote e-voting and e-voting during AGM

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 o he Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is providing remote e-voting facility to all its Members to cast their otes electronically on all resolutions set forth in the Notice of AGM through NSDL. The emote e-voting period will commence on Friday, September 26, 2025 at 9:00 A.M. (IST) and will end on Sunday, September 28, 2025 at 5:00 P.M. (IST). The remote evoting module shall be disabled for voting thereafter. The Members, whose names appear n the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date i.e., Monday, September 22, 2025, are entitled to avail the facility of remote e-voting as well as eoting during the AGM.

The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also ttend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again. Only those Members, who are present in the AGM through VC/OAVM and have not cast their votes on resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote hrough the e-voting system during the AGM.

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member after the dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date may obtain the

login ID and password by sending a request to NSDL at **evoting@nsdl.co.in**. In case of any queries or grievances connected with facility for e-voting and attending AGM & e-Voting, please contact at evoting@nsdl.co.in (1800 222 990 or 1800 1020 990 or 1800 224 430) or write to NSDL at NSDL, Trade World, 'A' wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013.

M/s. S.K Jain & Co., Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and e-voting during AGM in fair and rangnarent manner The details of the AGM are available on the website of the Company at

www.rajoilmillsltd.com, NSDL at www.evoting.nsdl.com, BSE Limited a ww.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com For Rai Oil Mills Limited

Place: Mumbai Priya Pandey Date: September 05, 2025 Company Secretary & Compliance Officer

PUBLIC NOTICE

ALGOQUANT FINTECH LIMITED having its Registered office at 503 A-B

504 A-B, 5th Floor, Tower A, WTC Block No. 51, Road 5E, Zone-5, Gift City

Gandhinagar, Ahmedabad, Gujarat-382 050 Registered in the name of the

 NO.
 Shareholder(s)
 No.
 No(s).
 Number(s)
 Shares

 1
 Mahasukhlal mehta
 M0016
 412
 362576-365025
 2450

The public are here by cautioned against purchasing or dealing in any wa

Any person who has any claim in respect of the said Share Certificate/s

should lodge such claim with the company or its Registrar and Transfe Agents Link Intime India Private Limited, 247 Park, C-101, 1st Floor

L. B. S. Marg, Vikroli (W), Mumbai-400 083 Tel. (022) 4918 6270 within 15 days of publication of this notice after which no claim will be

entertained and the company shall proceed to issue Duplicate Share

SH. BHUPENDER GUPTA, CMD, SJVN

ASSUMES CHARGE AS CHAIRMAN AND

MANAGING DIRECTOR OF NHPC

Sh. Bhupender Gupta, CMD, SJVN has assumed charge as

Chairman and Managing Director of NHPC Limited, a Schedule

Prior to this appointment, Sh. Gupta was serving as Director

project management, contract management and consultancy for

Before joining REC in 2007, Sh. Bhupender Gupta worked with

SJVN for 12 years contributing significantly to the planning, erec-

tion and commissioning of electro-mechanical equipment for the

1500 MW Nathpa Jhakri Hydro Power Station in Himachal

Pradesh. He has also worked on deputation with 1020 MW Tala

Sh. Bhupender Gupta is a Bachelor of Engineering (Electrical) and

WALKATHON ON CYBERSECURITY

AWARENESS BY BANKERS' CLUB,

CHANDIGARH

The Walkathon organized by Bankers' Club, Chandigarh at

Sukhna lake on August 31, 2025, witnessed enthusiastic par-

ticipation from Bankers in the region who came together to

spread awareness on cyber security. The Bankers Club

Chandigarh is a forum of senior bankers based in the city and

comprises members from RBI, NABARD, SBI, PNB, ICICI bank.

HDFC bank and all banks in the region which have at least one

The walkathon was flagged off by Shri M. Rajeshwar Rao,

digital age. Further, he applauded efforts put in by the Banker's

The event was aimed at spreading awareness about cyber safe-

ty, digital hygiene, and responsible online behaviour. Participants

carried placards highlighting the need for vigilance in the digital

age. Speaking on the occasion Shri Vivek Srivastava, President

Bankers' club said, "We are delighted with the overwhelming

Manager Network-2. State Bank of India. Shri Vimal Kishore.

General Manager Network-3, State Bank of India, Shri Lalit

Taneja, General Manager, Punjab National Bank and zonal

senior officer in the rank of Deputy General Manager.

Governor.

Reserve Bank of India.

Governor

In his address, the

tance of cyber security

in the ever-growing

emphasized the impor-

club to organize the walkathon.

managers of participating institutions.

Deputy

Deputy

(Technical) at THDCIL and is also holding

additional charge as Chairman &

Earlier, he served as Director (Technical)

at Punatsangchhu Hydroelectric Project

Authority in Bhutan. He has also served

as Additional Chief Executive Officer in

two subsidiaries of REC, namely REC

Transmission Projects Co. Ltd. and REC

Power Distribution Co. Ltd. He was the

operational head, overseeing execution.

Hydroelectric Power Project from 2002 to 2005.

holds an MBA in Operations Management.

Managing Director of SJVN.

various power projects

PARESH MEHTA

Advertorial

Name of Legal Claimant Rameshwar Media

NAME OF THE FOLIO | CERTIFICATE | DISTINCTIVE

following Shareholder(s) have been lost by them

with the above referred Share Certificates.

Place: Ahmedabad

'A' Navratna CPSE.

LACT®SE

LACTOSE (INDIA) LIMITED

CIN: L15201GJ1991PLC015186 Registered Office: Survey No 5,6 & 7A, Village Poicha (Rania), Taluka Savl Vadodara, Gujarat 391780.

Corporate Office: G-2, A Wing, Navbharat Estate, Zakaria Bunder Road Sewri (W), Mumbai 400015.Contact :022-24117030 Fax: 022-24117034 Email: lil@lactoseindialimited.com, website: www.lactoseindialimited.com

This is to inform that the 34th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visua Means ("OAVM") on Tuesday, 30th September 2025 at 12.00 noon IST in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, (SEBI Listing Regulations) and MCA Circular dated 05th May, 2022 reac with circulars 08th April, 2020, 13th April, 2020, 05th May, 2020, 28th September 2020 31st December, 2020 and 13th January, 2021 (MCA Circulars) to transac the business set out in the Notice to the AGM. The deemed venue for the 34

The Notice convening the AGM along with the Annual report for FY 2024-25 wil

Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their email addresses or mobile number with the Company, are requested to register/ update the same by clicking on https://bigshareonline.com/

e-voting or e-voting during AGM for all Members (including the Members holding shares in physical form/ whose e-mail addresses are not registered with DPs/Company/RTA) are stated in the Notice.

This advertisement shall also be available on Company's website at www.lactoseindialimited.com and also on BSE Limited website a www.bseindia.com

Place : Mumbai

Company Secretary

Regd. Office: 135, Continental Building, 2nd Floor, Dr. Annie

Besant Road, Worli, Mumbai - 400 018, Maharashtra Corp. Office: FC-9, Film City, Sector 16 A, Noida - 201 301, U.P. E-mail: complianceofficer@zeemedia.com, CIN: L92100MH1999PLC121506.

> NOTICE OF 26th ANNUAL GENERAL MEETING AND **E-VOTING INFORMATION**

Office of the Company. Members participating through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. The facility for appointment of Proxies by the Members will not be available since this AGM is being conducted through VC/OAVM.

- Pursuant to section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is pleased to provide the facility to the members to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at AGM. Members holding shares either in physical form o dematerialized form or whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owner as on Friday, September 19, 2025 ('cut-off date'), can cast their vote electronically through remote e-voting system as well as e-voting at the AGM on NSDL at $\underline{www.evoting.nsdl.com}.$
- Tuesday, September 23, 2025 and will end at 5:00 PM (IST) or Thursday, September 25, 2025. Thereafter the e-voting module shall be disabled by NSDL. Once the vote on a resolution is cast by members, the members cannot modify it subsequently. Members who have acquired shares after the sending of the
- vote at the meeting.
- under:
 - register their email address, in respect of demat holdings with the respective Depository Participant (DP) by following the procedures prescribed by the Depository Participants.
- The procedure of electronic voting is detailed in the Notice of the AGM and is also available on the website of NSDL a www.evoting.nsdl.com. In case of gueries, members may refer to Frequently Asked Questions ('FAQS') and e-voting user manua for Members available in the download section of the e-voting website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Members who need assistance before or during the AGM may send a request a $\underline{evoting@\,nsdl.com}\,\,or\,\,contact\,\,NSDL\,\,at\,\,\underline{evoting@\,nsdl.com}\,\,or\,\,cal$ at 022 - 4006 7000.
- Any query or grievance connected with the AGM, other than e voting, may be addressed to the Company Secretary a complianceofficer@zeemedia.com or at the corporate office address of the Company or members may contact Ms. Surabh Gangatirkar, MUFG Intime India Private Limited (formerly 'Link Intime India Private Limited'), the Registrar & Share Transfer Agent of the Company at C-101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhrol West, Mumbai- 400 083 Tel: +91 022 49186270, Fax: +91 022

For Zee Media Corporation Limited

Place: Noida Company Secretary & Compliance Office Date: September 4, 2025 Membership No.: A18577

NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY NOTICE OF THE 34th annual general meeting

be sent only through electronic mode on Saturday 06th September 2025 to the member's whose email address are registered with the Depository Participants ("DP's")/Company/ Registrar & Share transfer Agent viz Bigshare Service Private Limited ("RTA") in accordance with the MCA Circula and SEBI Regulations.

Members can attend and participate in the AGM only through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"). The procedure or instructions for joining the AGM through VC/OAVM are stated in the notice.

For Lactose (India) Limited

Date: 05th September, 2025

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN the General Public that following Share Certificate of

GUJARAT FLUOROCHEMICALS LIMITED

CIN: L24304HP2018PLC011898

Registered Office: Plot No. 1, Khasra Nos. 264 to 267 Industrial Area Una, Village Basal - 174303, Himachal Pradesh.

NOTICE OF THE 7[™] ANNUAL GENERAL MEETING, **REMOTE E-VOTING AND RECORD DATE**

Annual General Meeting:

Gujarat Fluorochemicals Limited ('the Company') will be held on Monday, 29th September 2025 at 11:30 a.m. (IST) through Video Conference ('VC') / Other Audio-Visual Means ('OAVM'), to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. Pursuant to Genera Circular No. 09/2024 dated 19th September, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read together with previous Circulars issued by the MCA in this regard (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3rd October, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") reac together with other previous Circulars issued by SEBI in this regard (collectively referred to as "SEBI Circulars"), Companies are permitted to convene the AGM through VC / OAVM without physical presence of the Members at a common venue till 30th September, 2025

The Integrated Annual Report 2024-25 of the Company along with Notice of the AGM is available on the website of the Company at www.gfl.co.in and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. A copy of the same is also available on the website of the National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com.

Remote e-Voting:

The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notes to the Notice of the AGM Members are requested to note the following

1. The remote e-Voting facility would be available during the following period:

Conclusion of remote e-Voting Sunday, 28th September, 2025 at 05:00 p.m. The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and

- share capital of the Company as on Monday, 22nd September, 2025 ('cut-off date'). The facility of remote e-Voting shall also be made available during the Meeting and shall be disabled 15 minutes after the conclusion of the Meeting. Members attending the Meeting who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their righ to vote during the Meeting. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the same shall not be allowed to be changed subsequently. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before / during the AGM. Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the Meeting may attend the Meeting electronically
- A non-individual shareholder or shareholder holding securities in physical mode and who becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and password for remote e-Voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if the Member is already registered with NSDL for remote e-Voting, then he / she can use his / her existing User ID and password for casting
- Individual shareholders holding securities in electronic mode and who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date may follow the login process mentioned at point 14(A) of the Notes to the Notice of the AGM.
- 5. Members can also login by using the existing login credentials of the demat account held through DPs registered with NSDL or Central Depository Services (India) Limited ('CDSL')
- Vadodara has been appointed as the Scrutiniser to scrutinise the remote e-Voting process before / during the AGM in a fair and transparent manner.

you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to at evoting@nsdl.co.in. Dividend and Record Date:

Members may note that the Board of Directors of the Company at its meeting held on 27th May 2025 had recommended a Final Dividend Rs. 3/- per equity share having face value of Re. 1/ each. The Final Dividend, if approved, by the shareholders in the ensuing AGM, will be paid in 30 days and the same be paid to those Members whose names appear on the Register of Members of the Company as on record date (cut-off date) 22nd September, 2025 in respect of Shares held in physical form and to those beneficial owner of shares (BENPOS) received from NSDL and CDSL, in respect of shares held in Electronic Form. For Gujarat Fluorochemicals Limited

Sd/

Date: 4th September, 2025

AGM will be the registered office of the company.

InvestorRegistration.aspx#AdvdTrack# and members who have shares in dematerialized form and not yet registered their e-mail addresses are requested to register the same with their DPs.

The detailed procedure or instructions for casting votes through remote

By Order of Board of Directors

Telephone: +91 1975 297843 Email id: bvdesai@gfl.co.in Website: www.gfl.co.ir

NOTICE is hereby given that the 7th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of

In accordance with the said circulars, the Company has sent Notice of the AGM along with a weblink to access the Integrated Annual Report 2024-25 on Thursday, 4th September, 2025. through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar & Transfer Agent / Depository Participants ('DPs'). The Company shall send a physical copy of the Integrated Annual Report 2024-25 to those Members who specifically request for the same at bvdesai@gfl.co.in or bhavesh.jingar@gfl.co.in mentioning their Folio No. / DP ID and Client ID.

compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the MCA Circulars, the Company is pleased to provide to its Members the facility of remote e-Voting before / during the AGM in respect of the business to be transacted as mentioned in the Notice of the AGM and for this purpose, the Company has appointed National Securities Depository Limited ("NSDL") for facilitating voting through

Commencement of remote e-Voting Thursday, 25th September, 2025 at 09:00 a.m. Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.

- 2. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity
- but shall not be entitled to vote on such resolution(s) again.
- Mr. Nirai Trivedi. Partner of M/s. TNT & Associates, Practicing Company Secretaries,

In case of any queries / grievances pertaining to remote e-Voting (before / during the AGM)

Bhavin Desa

response. The walkathon has sent out a strong message on importance of cybersecurity in our daily lives." The event was also graced by Executive Directors from RBI along with Shri Vinod Kumar Arya, Chief General Manager, NABARD (Haryana), Smt. Nivedita Tiwari, Chief General Manager, NABARD (Punjab), Shri Neeraj Bharti, General

Place: Vadodara

Company Secretary

THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY LIMITED

CIN: L35110MH1948PLC006472 Registered Office: Ocean House, 134/A Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400018. Tel No.: +91 (22) 66613000/24922100; Fax: +91 (22) 24925900 Email: shares@greatship.com; Website: www.greatship.com

NOTICE OF SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Notice is hereby given to inform that in order to facilitate ease of investing for investors and to secure the rights of investors in the securities which were purchased by them, SEBI vide its circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 02nd July, 2025 has opened a special window only for re-lodgement of transfer deeds. which were lodged prior to the deadline of 01st April, 2019 and rejected returned/not attended to due to deficiency in the documents / process, or otherwise, for a period of six months from 07th July, 2025 till 06th January, 2026.

During this period, the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the Listed Company/ RTA, as on date) shall be issued only in demat mode after following due process for transfer-cum-demat request.

Investors who have missed the earlier deadline of 31st March 2021, are encouraged to take advantage of this opportunity by submitting their requests along with requisite documents to the Company or RTA at below mentioned address.

Ocean House, 134/A, Dr. Annie

Email ID- shares@greatship.com

Place · Mumbai

Date: 5th Septembr. 2025

The Investor Services Department Registrar and Transfer Agent (RTA): The Great Eastern Shipping Co. Ltd. KFIN Technologies Limited (Unit: The Great Eastern Besant Road, Worli, Mumbai- 400 018 Shipping Co. Ltd.)

Selenium Tower-8, Plot No. 31-32, Financial District, Nanakramguda,Serilingampally, Gachibowli, Hyderabad, Telengana- 500 032

Email ID- einward.ris@kfintech.com

Anand Punde

Company Secretary

For The Great Eastern Shipping Company Limited

MEDIA ZEE MEDIA CORPORATION LIMITED

Website: www.zeemedia.In; Tel: 0120-2511064-73

Notice is hereby given that the 26th (Twenty Sixth) Annual Genera Meeting ('AGM') of the members of Zee Media Corporation Limited ('the Company') will be held on Friday, September 26, 2025 at 02.30 PM (IST) through Video Conferencing (VC)/Other 'Audio Visual Mean (OVAM') to transact the businesses as set forth in the Notice calling AGM, in compliance with all the applicable provisions of the Companie Act, 2013 ('the Act') read with the rules made thereunder, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and all applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Securities Exchange Board of India ('SEBI') ('Circulars').

In compliance with the Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2024-25 has been sent electronically on September 4, 2025 to those members who have registered their email addresses with the Company/RTA/Depository Participant(s). Said documents are also available on the Investo Section on the website of the Company at www.zeemedia.in, Website of BSE Limited ('BSE') at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited ('NSE') at www.nseindia.com and on National Securities Depositary Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com. In compliance with Listing Regulations, the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report is available, are dispatched to those member(s) who have not registered their email address (es with Company /RTA/ Depository Participants of the Company. The relevant documents pertaining to the items of business to be transacted at the AGM shall be kept open for inspection by the members online during the AGM through VC.

The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM:

- The remote e-voting period will commence at 9:00 AM (IST) or
- Annual Report through electronic means and before the cut-of date, i.e. Friday, September 19, 2025, may obtain the USER ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.com or compliance of ficer@zeemedia.com However if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then you may use you existing USER ID and Password, and cast your vote. Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM, however they shall not be eligible to
- The process for registration/updation of e-mail addresses is a
- ✓ For shares in physical mode: Members holding shares i physical mode and who have not registered/updated their emai addresses with the Company are requested to register/update their email addresses by submitting Form ISR-1 duly filled and signed along with requisite documents to MUFG Intime India Private Limited (formerly 'Link Intime India Private Limited') Registrar and Share Transfer Agent rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com.
- For shares in electronic mode: Members are requested to
- 49186060, E-mail rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com.

Ranjit Srivastava

1.0 %

0.2 %

0.4 %

बाजार पर नहीं जीएसटी सुधार का खास असर

30 शेयरों वाला सेंसेक्स केवल 150 अंक की बढ़त के साथ हुआ बंद, एनएसई का निफ्टी-50 भी रहा सपाट

बीएस संवाददाता मुंबई, 4 सितंबर

स्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में दो दरों के प्रावधान की खुशी बाजार में अधिक देर तक टिक नहीं सकी। तेल अन्वेषण सेवाओं पर सबसे अधिक जीएसटी लगने के बाद रिलायंस इंडस्टीज के शेयरों में बिकवाली से सेंसेक्स कारोबार के दौरान दर्ज बढ़त गंवा बैठा। बीएसई का सेंसेक्स कारोबार के दौरान लगभग 889 अंक (1.1 प्रतिशत) तक उछलने के बाद केवल 150 अंक (0.2 प्रतिशत) की बढ़त दर्ज कर 80,718 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी भी केवल 19 अंक (0.08 प्रतिशत) बढ़ कर 24,734 पर बंद हुआ। बाजार पूंजीकरण 1.5 लाख करोड़ रुपये फिसल कर 451 लाख करोड़

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को दोपहिया वाहनों, उपभोक्ता वस्तुओं, एयर कंडीशनर और कैंसर की दवाओं सहित अन्य वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की। इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने अधिकांश वस्तुओं के लिए 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-दर संरचना को मंजूरी दी,



जो आमागी 22 सितंबर से प्रभावी हो जाएगी। हालांकि, 'अत्यधिक महंगी'और 'हानिकारक' वस्तुओं जैसे सिगरेट, एक निश्चित इंजन क्षमता से अधिक कारों और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर 40 प्रतिशत की

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा, 'पिछले 2-3 वर्षों में कमजोर उपभोग का जिम्मेदार आंशिक रूप से जिंसों की कीमत आधारित मूल्य सीएजीआर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। जीएसटी दर में कटौती से मुद्रास्फीति में कमी से यह दिक्कत दूर हो जाएगी। इसके अलावा जिंसों की कीमतों में कमी, अच्छी वर्षा, शहरी खपत के लिए

अनुकूल आधार, व्यक्तिगत आयकर में कमी और नए वेतन आयोग के गठन से अगले 12-15 महीनों में एफएमसीजी खपत बढने की उम्मीद है। हालांकि, जीएसटी में बदलाव से बाजार कारोबार की शरुआत में उछला था बाद में उसका जज्बा कमजोर पड़ गया।

मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेस के वेल्थ मैनेजमेंट के रिसर्च हेड सिद्धार्थ खेमका ने कहा, 'बाजार कंपनियों की सुस्त आय, अमेरिकी शुल्कों से जुड़ी चिंता और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) द्वारा बिकवाली के दबाव से जझ रहा है। जीएसटी में कमी का प्रभाव तीसरी तिमाही की आय में दिखाई देगा।'

जीएसटी दरें उम्मीद से बेहतर पर बाजार में दिख चुका असर

पुनीत वाधवा नई दिल्ली, 4 सितंबर

विश्लेषकों का मानना है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बुधवार को की गई कटौती उम्मीद से बेहतर है। लेकिन शेयर बाजारों में इस फैसले से पहले ही इसका सकारात्मक असर दिख चुका था। दर कटौती का उत्साह खत्म होते ही बाजार की नजर अब भारतीय कॉरपोरेट आय और अमेरिकी टैरिफ पर केंद्रित होगी। विश्लेषकों का कहना है कि अहम बात यह होगी कि कंपनियां जीएसटी की

जल्द पहंचाती हैं। अगर इस कदम पर सही से अमल किया गया तो इससे बाजार धारणा और उपभोक्ताओं के खर्च दोनों में सुधार आ सकता है। कोटक महिंद्रा एएमसी के प्रबंध निदेशक नीलेश शाह का कहना है।

घटी दरों का फायदा ग्राहकों तक कितना

कि जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने से आने वाली तिमाहियों में अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव कम होगा। जीएसटी परिषद ने बुधवार को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो-स्तरीय कर व्यवस्था को मंजूरी दे दी और कथित 'नुकसानदेह' वस्तुओं पर कर बढ़ा दिया।

बर्नस्टीन के विश्लेषकों ने कहा कि दरों में कटौती, खासकर रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुओं (एफएमसीजी) पर उनकी सोच से कहीं ज्यादा है।शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट और साबुन जैसी दैनिक जरूरत वाली वस्तुओं पर जीएसटी की दर 18 से घटाकर 5 प्रतिशत करना स्पष्ट रूप से सकारात्मक आश्चर्य है क्योंकि इन श्रेणियों में दरें ऊंची रहने की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी शून्य करने से इसके दायरे में सुधार होगा।

इक्विटी एमएफ में

अभिषेक कुमार मुंबई, 4 सितंबर

इक्विटी म्युचुअल फंडों में निवेश अगस्त में भी ऊंचे स्तर पर बना रहा। इससे पहले जुलाई में इक्विटी म्युचुअल फंडों में 42,702 करोड़ रुपये आए थे। म्युचुअल फंड प्रबंधकों द्वारा सेकंडरी बाजार में ताबड़तोड़ खरीदारी के बाद जुलाई निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। अगस्त में एमएफ ने इक्विटी फंडों

में निवेश बढ़ा दिया जिससे शुद्ध खरीदारी 70,500 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो किसी महीने होने वाला दूसरा सबसे अधिक निवेश है। इससे पहले केवल अक्टूबर 2024 में इक्विटी निवेश 90.770 करोड़ रुपये तक पहुंचा था। यह अब तक किसी एक महीने में हुआ निवेश का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

एमएफ द्वारा शुद्ध इक्विटी फंडों में निवेश कई कारकों पर निर्भर करता है। इनमें इक्विटी (पैसिव सहित) और हाइब्रिड योजनाओं में रकम का आना-जाना, हाइब्रिड योजनाओं में इक्विटी आवंटन में बदलाव और

नकद हिस्सेदारी में परिवर्तन आदि शामिल हैं।

एमएफ इक्विटी में अगस्त में हुआ जमकर निवेश बाजार में गिरावट के बीच हुआ है। निफ्टी 50 इंडेक्स जुलाई में लगभग 3 प्रतिशत फिसल गया था और अगस्त में 1.4 प्रतिशत निचले स्तर पर बंद हुआ।

जलाई में एमएफ प्रवाह में तेजी छह महीने तक निवेश की गति सुस्त रहने के बाद आई है। यह तेजी एकमुश्त प्रवाह और नई फंड पेशकश (एनएफओ) संग्रह में सुधार के बाद आई है। सकल एकमुश्त निवेश जून में 34.300 करोड़ रुपये से बढ़कर जुलाई में 52,000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया।

एमेजॉन ने पूरा किया एक्सियो का अधिग्रहण

पीरजादा अबरार बेंगलूरु, 4 सितंबर

ऑनलाइन खुदरा कंपनी एमेजॉन ने एक्सियो (पूर्व में कैपिटल फ्लोट) का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इससे पहले एमेजॉन को यह अधिग्रहण पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से अनुमति मिल गई थी। कंपनी को इससे भारत में वित्तीय सेवा क्षेत्र में मौजुदगी बढाने में काफी मदद मिलेगी।

ई-कॉमर्स कंपनी एमेजॉन ने इस सौदे को भारत में अपने सबसे बड़े सौदों में से एक बताया है। कंपनी के प्लेटफॉर्म पर एक्सियो छह वर्षों से 'बाय नो पे लेटर' सुविधा दे रही थी मगर अब इस अधिग्रहण के बाद डिजिटल माध्यम से ऋण सुविधा देने वाला यह प्लेटफॉर्म एमेजॉन के नियंत्रण में आ गया है। 'बाय नो पे लेटर' सुविधा में ग्राहक समान खरीद कर रकम का भुगतान मासिक किस्तों पर करते हैं।

यह अधिग्रहण एमेजॉन को ऋण योजनाओं एवं अन्य सेवाओं में उतरने में मदद करेगा। एमेजॉन ने इस सौदे की वित्तीय शर्तों का खुलासा तो नहीं किया मगर इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि यह अधिग्रहण 20 करोड़ डॉलर में हुआ है। एक्सियों के सभी मौजुदा निवेशक सौदे की शर्तों के तहत बाहर हो गए हैं जबकि कंपनी के संस्थापक शीर्ष पर बने रह सकते हैं।

एमेजॉन में उपाध्यक्ष (भुगतान) महेंद्र नेरूरकर ने कहा, '6 भारतीयों में केवल 1 के पास चेकआउट फाइनैंसिंग की सुविधा है। इसे देखते हुए इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना एमेजॉन की प्राथमिकता है। पिछले छह वर्षों में एक्सियों के साथ हमारी साझेदारी ने हमें 1 करोड़ से अधिक ग्राहकों को क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने में मदद पहुंचाई है। नेरूरकर ने कहा कि उनकी कंपनी का मकसद इस बात के इर्द-गिर्द रहा है कि भुगतान एवं वित्तीय सेवाओं को कैसे अधिक सुविधाजनक, भरोसेमंद और फायदेमंद बनाकर लोगों का जीवन सरल बनाया जाए।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवा कंपनियां

जब अपने उद्यम में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस

(एआई) शामिल करेंगी तब ही वे उच्च एक

अंक अथवा निम्न दो अंकों में वृद्धि की गति पा

सकती हैं। यह बात कॉग्निजेंट के एक शीर्ष

अधिकारी ने कही है। उन्होंने कहा कि आईटी

सेवा कंपनियों को वृद्धि की गति पाने के लिए

अपनी तकनीकी संरचना में एआई को शामिल

करना होगा और मूल्य श्रृंखला में एजेंट की

एक निवेशक सम्मेलन में कॉग्निजेंट

अमेरिका के प्रेसिडेंट सूर्या गुम्मादी ने कहा,

'जैसे ही ऐसा हो जाएगा तो बाजार उस वृद्धि दर

पर लौट आएगा। मगर चाहे यह दो तिमाहियों

अथवा तीन तिमाहियों के बाद हो यह कई अन्य

व्यापक गतिशीलता पर निर्भरता करेगा, जिनसे

आप हम निपट रहे हैं।' फिलहाल, सभी आईटी

सेवा प्रदाता लागत कम करने, दक्षता बढ़ाने

अभीक दास

बेंगलूरु, 4 सितंबर

तैनाती करनी होगी।

कुछ समय तक आईटी फर्मों की

नहीं होगी ऊंचे एक अंक में वृद्धि

यूएसटी ने बेन कैपिटल को बेची हेल्थप्रफ

सूचना-प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवा प्रदाता कंपनी यूएसटी ने स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन से जुड़ी अपनी सहायक इकाई यूएसटी हेल्थप्रफ प्राइवेट इक्विटी कंपनी बेन कैपिटल को बेच दी है। दोनों कंपनियों के बीच यह सौदा 1 अरब डॉलर से अधिक रकम में हो रहा है। युटीएस ने तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाले क्षेत्रों जैसे एंटरप्राइज एआई, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यूएसटी हेल्थप्रूफ का सौदा

यएसटी ने कहा कि वह इंजीनियरिंग सहित स्वास्थ्य देखभाल, बीएफएसआई और खुदरा क्षेत्रों में अपने ग्राहकों के डिजिटल ढांचे को नया रूप दे रही है। यटीएस हेल्थप्रफ की बिक्री से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी प्राप्त आय का इस्तेमाल एआई सक्षम प्लेटफॉर्म और वर्टिकल सॉल्यूशन विकसित करने में करेगी।

एमेजॉन की सहायक कंपनी के रूप में एक्सियो अपने मौजूदा नेतृत्व के तहत काम करना जारी रखेगी। एक्सियो के पास प्रबंधनाधीन 2,200 करोड़ रुपये की संपत्ति थी। एक्सियों के सह-संस्थापक शशांक ऋष्यश्रंगा और गौरव हिंदुजा ने कहा, 'एमेजॉन के साथ हुआ यह सौदा हमें अधिक से अधिक लोगों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के हमारे अभियान को गति देगा। ऐमजॉन की पहुंच, ग्राहक पर विशेष ध्यान देने की उसकी खूबी और उसके बहीखाते के साथ हमें अगले 10 करोड़ भारतीयों तक डिजिटल उधारी की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

और मौजूदा सौदों और नवीनीकरण में

उत्पादकता बेहतर करने के लिए एआई,

जेनरेटिव एआई (जेन-एआई) और एजेंटिक

एआई का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ग्राहक भी

अपने प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने

का प्रयास कर रहे हैं। मगर इससे आईटी सेवा

प्रदाताओं के बीच भी कडी प्रतिस्पर्धा बढी है.

जिसका मुल रूप से मार्जिन पर असर पड़ा है।

गुम्मादी ने कहा कि इस क्षेत्र में मूल्य निर्धारण

परिदृश्य काफी प्रतिस्पर्धी बना हुआ है, लेकिन

जैसे-जैसे उद्यम एआई और एजेंट का उपयोग

बढ़ा रहे हैं आने वाले समय में मूल्य निर्धारण

प्रीमियम हो जाएगा। एआई और एजेंट के लिए

डोमेन और प्रासंगिक ज्ञान के साथ-साथ

अधिक कमाई की।

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय : यस बैंक भवन, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, सांताकृज पूर्व, मुंबई 400055, भारत वेबसाइट : www.yesbank.in, ईं-मेल : communications@yesbank.in, सीआईएन : L65190MH2003PLC14

द्वारा अधोवर्णित उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि वे बैंक से अपने द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के मुलधन एवं ब्याज का प्रतिभगतान करने में चुक कर चुके हैं तथा उनके सुविधाओं का खाता, अनार्जनकारी परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर कर दिया गया है। इस संबंध में उन्हें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञातव्य पतों पर सूचना निर्गत की गयी थी किंतु वह सूचना प्राप्तकर्ताओं को

	-		**		
क्र. सं.		ऋण का प्रकार	उधारकर्ताओं, सह—उधारकर्ताओं एवं बंधककर्ताओं के नाम	धारा 13(2) सूचना के अनुसार बकाया	एनपीए तिथि सूचना तिथि
1.	A/c No. MIC0070 01711436	सावधि ऋण सुविधा	अरुण अरोड़ा (उधारकती), कलश रानी (सह—उधारकर्ता और बंधककर्ता),	रु. 6,506,141.68 (पैंसठ लाख छह रुपये एक हजार एक सौ इक्यावन साठ— केवल आउ पैसे) 18—08—2025 तक	14-07-2025 18-08-2025

--- (...) प्राप्त हुये बिना ही वापस लौट आयी थी तथा अतः उन्हें अब उस सूचना के बारे में इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

प्रतिभूत परिसंपत्ति के विवरण : प्रतिभूत परिसंपत्ति के विवरण : दुकान संख्या 111 धारक अचल संपत्ति के समस्त वह भाग तथ अंश, जो वार्ड 9, क्षेत्रफल 13.22 वर्ग गज, तहसील और जिला पानीपत, हरियाणा में स्थित, कैलाशवंती के स्वामित्व में तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व : 17 फीट, पश्चिम : 17 फीट, उत्तर : 7 फीट, दक्षिण : 7 फीट

2.	A/c No.	एमओआर	I THE TOTAL CHAIN (STATE OF THE STATE OF THE	▼. 1,42,93,328.00 /—	03-01-2025
	MOR016801 351468	ऋण	(सह—उधारकर्ता तथा गारंटर), 3. रमेश कुमार शर्मा (सह—उधारकर्ता तथा गारंटर), 4. श्रीमती राज कुमारी शर्मा (सह—उधारकर्ता और बंधककर्ता)	(रुपये एक करोड़ बयालिस लाख तिरानबे हजार तीन सौ अहाईस मात्र) 06 अगस्त 2025 के अनुसार	18-08-2025

प्रतिभूत परिसंपत्ति के विवरण : प्लॉट संख्या— 1060, सेक्टर— 13, माप 14 मरला, अर्बन एस्टेट, करनाल, हरियाणा— 132001 में स्थित तथ मनानुसार परिसीमित है, सीमा :– पूर्व ; प्लॉट नं. 1059, पश्चिम ; प्लॉट नं. 1061, उत्तर ; मकान संख्या 1081, दक्षिण ; रोड। बंधककर्ता : श्रीमती राज कमारी शर्मा पत्नी श्री रमेश कमार शर्मा मैसर्स पलक प्रोसेसर्स, इसके स्वामी के माध्यम से,

श्री संचित गोयल (उधारकर्ता), 2. श्री सुनील कुमार गोयल (सह—उधारकर्ता" और "गारंटर"), 3. श्रीमती अंजू गोयल

(सह-उधारकर्ता" / बंधककर्ता और गारंटर)

ए. 55,52,800.96 (रुपये पचपन

सौ तथा छियानबे पैसे मात्र)

२६ अगस्त २०२५ के अनुसा

26-08-2025

তি	जिला पानीपत में स्थित — माप 39.98 वर्ग गज। सीमाएँ — उत्तर : मकान संख्या— 2312, दक्षिण : मकान संख्या 2310, पूर्व : रोड, पश्चिम : मकान संख्या 2318, बंधककर्ता : श्रीमती अंजू गोयल पत्नी श्री सुनील कुमार गोयल				
4.	AFH0070 01097685		 श्री सलेख चंद (उधारकर्ता), श्री रोहित (सह—उधारकर्ता और गारंटर), 	₹. 10,23,590.47 (रुपये दस लाख तेईस	13-02-2024
	01097003	****	2. श्रा शाहत (सह-उधारकता आर गारटर),	हजार पाँच सौ नब्बे तथा सैंतालीस पैसे	26 00 2025

एक संपत्ति मकान संख्या २३११ जो सेक्टर ११—१२ भाग—२ हाजर्फिंग बोर्ट कॉलोनी तहसील और

. गंख्या 78/6, वसिका नं. 1837 में समाहित दिनांक 26—04—2007 वाका पट्टी मखदूमजादगेन, एम.सी. आबादी जिसे डाबर कॉलोनी, तहसील और जिला पानीपत के नाम से जाना जाता है, की सीमा के अंदर। बंधककर्ता : श्री ममतेश पुत्र श्री सलेख चंद उपरोक्त उधारकर्ता(ओ) / सह–उधारकर्ता(ओ) / गारंटर(रो) / बंधककर्ता(ओ) (जब भी जहां कहीं लागू) को एतदद्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे इस सूचना

हे प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों के अंदर बकाया राशि का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर उक्त 60 दिवसों के समापन के तरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत भविष्य की कार्यवाहियां की जायेंगी। इसके अतिरिक्त यह सचना भी आपके संज्ञान में लायी जानी अपेक्षित लगती है कि अधिनियम की धारा 13(8) के अंतर्गत तब जबकि हमारे दारा वहनकर समस्त लागतों, शुटकों एवं व्ययों के साथ हमारी संपूर्ण बकाया देयराशियों का सार्वजनिक नीलामी / विक्रय की सूचना के प्रकाशन की तिथि से पूर्व किसी

भी समय हमें भुगतान कर दिया जाता है, तो तब हमारे द्वारा विक्रय नहीं किया जायेगा तथा प्रतिभूत परिसंपत्ति का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किय जायेगा, तथा हमारे द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्ति के हस्तांतरण अथवा विक्रय हेतु कोई भी भावी कार्रवाई नहीं की जायेगी।

हस्ता /- प्राधिकृत अधिकारी, कृते यस बैंक लिमिटेड दिनाँक : 05-09-2025, स्थान : हरियाणा

В

3. MOR0070

00793484

एलएपी

बजाज फाइनेंस लिमिटेड

ऋण खाता संख्या/उधारकर्ता(ओं)/

पंजीकृत कार्यालयः बजाज फाइनेंस लिमिटेड, सी./ओ बजाज ऑटो लिमिटेड कॉम्प्लेक्स मुंबई पुणे रोड अकुर्दी पुणे 411035 **शाखा कार्यालयः** बजाज फाइनेंस लिमिटेड, प्रथम तल दीक्षित टॉवर एससीएफ 33 अर्बन एस्टेट हुडा जाट धर्मशाला के सामने जींद 126102 शाखा कार्यालयः बजाज फाइनेंस लिमिटेड, द्वितीय तल एससीओ 225 सेक्टर 12 करनाल 132001

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस नीचे हस्ताक्षरकर्ता, मैसर्स बजाज फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, उधारकर्ता(ओं) सह-उधारकर्ता(ओं) को निम्नलिखित नोटिस दिया हैं, जो अपर्न देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, अर्थात, बजाज फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उन्हें दिए गए संपत्ति के खिलाफ गृह ऋण(ओं)/ऋण(ओं) के लिए मूलधन वे साथ-साथ ब्याज और उस पर अर्जित अन्य शुल्कों के पुनर्भुगतान में चूक गए हैं और परिणामस्वरूप ऋण गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत हैं तदनुसार, उन्हें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) और उसके नियमों के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पतों पर नोटिस जारी किए गए थे. तथापि उन्हें बिना तामील∕बिना वितरित किए वापस कर दिया गया है. इसलिए उधारकर्ता(ओं)∕सह–उधारकर्ताओं को इस प्रकाशन नोटिस के माध्यम से सूचना ⁄सूचित किया जाता है कि वे समय-समय पर उनके द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के अंतर्गत अपनी बकाया राशि का भुगतान करें

बंधककर्ताओं /गारंटर का नाम एवं पता	सुरक्षित अचल संपत्ति का पता	तिथि एवं राशि
तैनः P5N8PFB11031329 1. नरेंद्र नरेंद्र पुत्र रणबीर सिंह, निवासी 88/3 नरवाना रोड जिंद शीतलपुरी कॉलोनी जिंद हिरियाणा 126102 संपर्क 9813145965 ईमेल आईडीः narender1983&@gmail.com अन्य पतारा संपत्ति नया खेवट नं. 388 का हिस्सा, नया खतौनी नं. 431 खेवट नंवर 346, खतौनी नंवर 391 खसरा नंबर 974/1, रुकबा 1बी—14बी गांव अहिरका तहसील और जिला जींद 2. जगलान मशरूम ग्रोईंग युनिट इसके प्रोप. द्वारा नरेंद्र, निवासी शीतलपुरी कॉलोनी नरवाना रोड जिंद गांव जिंद तह. जिंद जिला जिंद हरियाणा 126102 संपर्कः 9253721882 ईमेल आईडीः narender1983&@gmail.com अन्य पताः निवासी शुगर मिल के पास झांझ खुर्द जिंद नरवाना रोड हरियाणा 126102 3. आर जे मशरूम ग्रोईंग यूनिट इसके प्रोप. द्वारा चुरेंद्र सिंह, निवासी 88/3 शीतलपुरी कॉलोनी नरवाना रोड जिला जिंद हरियाणा 126102 संपर्क 9813145965 ईमेल आईडीः Surender906870730@gmail.com अन्य पताः निवासी शुगर मिल के पास झांझ खुर्द जिंद नरवाना रोड हरियाणा 126102 4. सुरेंद्र सिंह पुत्र रणबीर सिंह, निवासी 88/3 नरवाना रोड जिंद शीतलपुरी कॉलोनी जिंद हरियाणा 126102 संपर्कः 9253721882 ईमेल आईडीः Surender906870730@gmail.com	नरेंद्र को बेचना, उत्तर डंडा 34-05' अन्य का प्लॉट, दक्षिण' डंडा 34'-05' सुनीता पत्नी अनिल, विक्रय विलेख 5894 दिनांक 04.01.2018 के अनुसार सीमाएँ . पूर्व: डंडा 25'-05' प्लॉट सुरेंद्र को बेचना, पश्चिम: डंडा 25'-05' गली, चौडाई 18 फीट, उत्तर' डंडा 34'-05' अन्य का प्लॉट, दक्षिण: डंडा 34'-05' सुनीता पत्नी अनिल	18.08.2025 और रु. 79,77,370/- (रु. उनासी लाख सतहत्तर हजार रीन सी सत्तर मात्र) दिनांक 18.08.2025 तक
तैनः 5N8BLSFH356293 1. असित कुमार पुत्र पाज कुमार, निवासी प्लॉट नंबर—डी-74 गोपाल नगर नजफगढ़ दक्षिणी पिश्चमी दिल्ली 110043 संपर्कः 9416039352 ई मेल आईडी: amit1988@gmail.com अन्य पताः निवासी खेवट ने 295 में प्लॉट, खाता नं 323 खसरा नं 5. खेवट नं 295 में प्लॉट, खाता नंबर 323 खसरा नं 5. खेवट नं 295 में प्लॉट, खाता नंबर 323 खसरा 511 मीजा खरैत तह. जुलाना जिला. जीन्द 126102 2. तारी तारी पुत्री हरि सिंह, निवासी प्लॉट नंबर—डी-74 गोपाल नगर नजफगढ़ दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली 110043 संपर्कः 9416033952 ई मेल आईडी: amit1988@gmail.com	जिला जींद सामान्य क्षेत्रों में आनुपातिक हिस्सेदारी के साथ (क्षेत्रफल 324 वर्ग गज) सीमाएँ . पूर्व: 72"–0" सुखबीर का प्लॉट, पश्चिम: 72"–0" यथापाल और रमेश का प्लॉट, 40"–6" रोड, दक्षिण: 40"–6" राजकुमार का प्लॉट	18.08.2025 और रु. 20,47,860.15 (रु. बीस लाख सैतालीस हजार आठ सौ साठ और पैसे पदंह मात्र) दिनांक 18.08.2025 तक
लेन: P509PBL8317599 1. सुमित सुमित पुज श्याम सुंदर, निवासी: 43 ब्राह्मण मौहल्ला झांझरी 82 करनाल हरियाणा 132116, संपर्कः 9053531253, ईमेल आईडी: kaka27sharma@gmail.com	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि हस्तांतरण विलेख संख्या 1782 दिनांक 24/01/2017 के अनुसार गाँव झाझरी, तहसील नीलोखेडी, जिला करनाल, हरियाणा—132116 साझा सेओं में आनुपतिक हिस्सेवारी सहित (क्षेत्रफल 263.81 वर्ग गज)	20.08.2025 और रु. 20,16,215/- (रु. बीस लाख

सीमाएँ: कानुनी दस्तावेजों के अनुसार: पूर्व: मुख्य सड़क (42') पश्चिम: श्री दीवान सिंह का मकान (36'9"), उत्तर: श्रीमती विद्य

वंटी के प्लॉट का शेष भाग (58'8''). दक्षिण: श्री ओमप्रकाश क

मकान (61'11"), **साइट विजिट के अनुसार:** पूर्व: 12 फीट चौड़ी जनरल गुली (42'), पश्चिम: दीवान का मकान (36'4"), उत्तर:

मनोज मिश्रा का मकान (58'8'), दक्षिणः श्री ओमप्रकाश व

अधिक खास कौशल की भी जरूरत होती है। कॉग्निजेंट का दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ यह कदम नोटिस की प्रतिस्थापित सेवा के लिए उठाया जा रहा है। उपरोक्त उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं, गारंटरों को सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के प्रकाश 14 फीसदी बढ़कर 64.5 करोड़ डॉलर हो की तारीख से 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज के साथ बकाया राशि का भृगतान करें, ऐसा न करने पर (बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ उपलब्ध किसी भी अन्य सही उपाय के प्रतिकुल प्रभाव के बिना) सुरक्षित परिसंपत्तियों /बंधक संपत्ति पर कब्जा करने के लिए आगे की कार्रवाई वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और गया, क्योंकि कंपनी ने अपने मुख्य कारोबारी पनर्निर्माण और प्रतिभत्ति हित अधिनियम. 2002 के प्रवर्तन की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनसार शरू की जाएगी। ऊपर दिए गए पक्षों को यह भी सलाह दी जाती है क्षेत्रों, स्वास्थ्य सेवा और बैंकिंग, वित्तीय कि वे उपर्युक्त संपत्तियों में तीसरे पक्ष की रुचि पैदा न करें। जोकि बजाज फाइनेंस लिमिटेड के पास प्रभारित है। सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई) से

आईडीः kaka27sharma@gmail.con

वासीः ४३ ब्राह्मण मौहल्ला झांझरी ८२ करनाल हरियाणा १३२११६. संपर्कः ९०५३५५१२५३. ईमेल

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकार्र दिनांकः 05.09.2025.

गुजरात फ्लोरोकमिकल्स लिमिटेड CIN: L24304HP2018PLC011898

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट संख्या १, खसरा संख्या २६४ से २६७ औद्योगिक क्षेत्र, ऊना, गाँव बसल - १७४३०३, हिमाचल प्रदेश.

टेलीफोन: +९१ १९७५ २९७८४३ ईमेल: bvdesai@gfl.co.in वेबसाइट: www.gfl.co.in ७वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग और

रिकॉर्ड की तारीख़ की सूचना वार्षिक आम बैठक की सूचना :

इसके द्वारा सुचित किया जाता है कि गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की सातवी वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') **सोमवार, २९ सितंबर, २०२५ को सुबह ११:३० बजे (भारतीय मानक** समय) वीडियो कॉन्फ्रेंस ('वीसी')/अन्य ऑडी-विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') द्वारा आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों का निष्पादन किया जा सके। सेबी द्वारा जारी अन्य पिछले परिपत्रों के साथ पढ़ें (सामूहिक रूप से 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) जाने वाले एमसीए द्वारा जारी पिछले परिपत्रों (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी ३ अक्टूबर, २०२४ के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी पीओडी-२/पी/ सीआईआर/२०२४/१३३ के साथ पढ़ें जाने वाले कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी १९ सितंबर, २०२४ के सामान्य परिपत्र संख्या ०९/२०२४ के संबंध में कंपनियों को ३० सितंबर २०२५ तक एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी / ओएवीएम के माध्यम से

एजीएम बुलाने की अनुमति है। उक्त परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने उन सदस्यों को, जिनके ईमेल एड्रेस कंपनी/रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी') के पास पंजीकृत हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से **गुरुवार, ४ सितंबर**, २०२५ को एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट २०२४-२५ तक पहुँचने के लिए एक वेबलिक सहित वार्षिक आम बैटक (एजीएम) की सूचना भेजी है। कंपनी उन सदस्यों को, जो विशेष रूप से अनुरोध करते हैं bvdesai@gfl.co.in या bhavesh.jingar@gfl.co.in पर एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट २०२४-२५ की एक भौतिक प्रति भेजेगी, जिसमें उनके फोलियो नंबर / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख होगा। कंपनी की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट २०२४-२५, वार्षिक आम बैठक की सूचना सहित, कंपनी की वेबसाइट www.gfl.co.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग :

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १०८ और पटित कंपनी (पबंधन एवं प्रशासन) नियम, २०१४ के नियम २० भारतीय कंपनी सचिव संस्थान दारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ('एसएस-२') और एमसीए परिपत्रों के साथ सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ के विनियम ४४ के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को वार्षिक आम बैठक की सचना में उल्लिखित कार्यो के संबंध में वार्षिक आम बैठक से पहले / उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है और इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") को नियुक्त किया है।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तत निर्देश वार्षिक आम बैठक की सचना के नोटस में दिए गए हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित पर ध्यान दें:

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा निम्निलिखत अविध के दौरान उपलब्ध होगी :

रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत	गुरुवार, २५ सितंबर, २०२५ सुबह ९:०० बजे
रिमोट ई-वोटिंग का समापन	रविवार, २८ सितंबर, २०२५ शाम ५:०० बजे
इसके बाद, एनएसडीएल द्वारा रिमोट और सदस्यों को उक्त तिथि और समय	ई-वोटिंग मॉड्यूल को मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएग 1 के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की अनुमति नहीं र्द

- सदस्यों के मतदान अधिकार सोमवार, २२ सितंबर, २०२५ ('कट-ऑफ तिथि') को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक समाप्त होने के १५ मिनट बाद इसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा। बैठक में भाग लेने वाले सदस्य. जिन्होंने अभी तक रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है, बैठक के दौरान अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर मतदान कर दिए जाने के बाद, उसे बाद में बदलने की अनमति नहीं दी जाएगी। केवल वही व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज है। वार्षिक आम बैठक से पहले / उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। जिन सदस्यों ने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे इलेक्टॉनिक रूप से बैठक में भाग ले सकते हैं. लेकिन वे ऐसे प्रस्ताव पर दोबारा वोट देने के हकदार नहीं होंगे।
- 3. कोई गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक या भौतिक रूप से प्रतिभतियाँ धारण करने वाला शेयरधारक, जो सचन भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर रिमोट ई-वोटिंग के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि , यदि सदस्य पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पंजीकृत है , तो वह वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि सदस्य पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पंजीकृत है, तो वह वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
- इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिभूतियाँ धारण करने वाला व्यक्तिगत शेयरधारक, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वार्षिक आम बैठक की सूचना के नोट्स के बिंदु १४(A) में उल्लिखित लॉगिन प्रक्रिया का पालन कर सकता है।
- ५. सदस्य रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल या सेंटूल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') के साथ पंजीकृत डीपी के माध्यम से रखे गए डीमैट एकाउंट के मौजूदा लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं।

श्री नीरज त्रिवेदी, मेसर्स टीएनटी एंड एसोसिएटस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, वडोदरा के पार्टनर को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से पहले/उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी

तरीके से जाँच करने के लिए संवीक्षक नियक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पहले/उसके दौरान) से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूज़र मेनुअल <u>www.evoting.nsdl.com</u> के डाउनलोड अनुभाग में देख सकते हैं या ०२२-४८८६ ७००० और

०२२-२४९९ ७००० पर कॉल कर सकते हैं या <u>evoting@nsdl.co.in</u> पर अनुरोध भेज सकते हैं। लाभांश और रिकॉर्ड तिथि :

स्थान : वडोदरा

सोलह हजार

दो सौ पदंह मात्र)

दिनांक 20.08.202

सदस्य कृपया ध्यान दें कि कंपनी के निदेशक मंडल ने २७ मई, २०२५ को आयोजित अपनी बैटक में रुपये अंकित मल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ३ रुपये का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की थी। यदि शेयरधारकों द्वारा आगामी वार्षिक आम बैठक में अंतिम लाभांश को मंजरी दे दी जाती है, तो इसका भगतान ३० दिनों के भीतर किया जाएगा और यह उन सदस्यों को दिया जाएगा जिनके नाम भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में रिकॉर्ड तिथि (कट-ऑफ तिथि) २२ सितंबर, २०२५ को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं। और इलेक्टॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में एनएसडीएल और सीडीएसएल से प्राप्त शेयरो के उन लाभकारी स्वामियों (BENPOS) को दिया जाएगा।

गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड के लिए हस्ताक्षरकर्ता / भाविन देसाई

कंपनी सचिव एफसीएस ७९५२

दिनांक : ४ सितंबर, २०२५

₹ 1,090.2 आज का बंद भाव 0.3 %